

श्री गुरु गोबिंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो० वीना राठौर ने बतौर मुख्यअतिथि शिरकत की। मंचसंचालक प्रो० रीना चौहान ने शुरुआत में सभी का स्वागत किया और बताया कि महाविद्यालय की विभिन्न इकाइयों ने मिलकर इस कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियां तैयार की हैं। प्राचार्या प्रो वीना राठौर ने मां सरस्वती के समक्ष द्वीप प्रज्ज्वलित कर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एन०एस०एस० स्वयंसेवी प्रेरणा ने एकल नृत्य, अंकित चौहान ने एकल गान “ओ री चिरैया” और “माँ” गीत प्रस्तुत किया तथा वंशिका चौधरी ने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखे। राष्ट्रीय सेवा योजना एवं ईकोक्लब के स्वयंसेवकों ने एक ‘कविसम्मेलन’ प्रस्तुत किया जिसमें सात कवियों ने भाग लेकर स्वरचित कविताओं का पाठ किया। इसमें भार्गव तोमर, अवंतिका सकलानी, अमित तिवारी, नेहा, तनुजा, नितिका चौधरी, देवेंद्र सिंह, अंकिता ने अपनी कविताओं से सभी का दिल जीत लिया। महाविद्यालय के ईकोक्लब, एन० सी०सी०, तथा रेड रिबन क्लब ने मनमोहन समूहगान “बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे” पेश किया तथा ‘चूज़ टू चैलेंज’ थीम पर अनेक पोस्टर बनाये। रोवर एंड रैंजर्स इकाई ने महाविद्यालय की महिलाओं को एक एक पौधा भेंटस्वरूप दिया जिनका रोपण महाविद्यालय प्रांगण में किया जाएगा। इस अवसर पर प्रो रामलाल तोमर ने कहा कि महिलाओं की सृजनशक्ति से ही संसार का अस्तित्व है और समाज में संस्कार, भावनाएं तथा स्नेह स्त्रियों की ही देन हैं। अतः इस सृष्टि व समाज के हित के लिए स्त्रियों का सम्मान करना अतिआवश्यक है।

अपने अभिभाषण में मुख्यअतिथि ने सभी महिलाओं को इस दिवस की बधाई देते हुए कहा कि महिलाओं को अपने सशक्तिकरण हेतु पुरुषों के साथ तुलनात्मक रवैयेसे ना अपनाकर अपने अस्तित्व को निखारने का आह्वान किया। उन्होंने महिलाओं को अपने स्त्रीत्व पर गर्व करने पर प्रेरित किया तथा सभी महिला स्टाफ को एक एक गुलाब भेंट कर उन्हें विशेष होने का एहसास करवाया। प्राचार्या ने सभी स्वयंसेवकों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए तारीफ कर उनका मनोबल बढ़ाया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

इस अवसर पर प्राचार्या डॉ वीना राठौर, वरिष्ठ प्रो सुलक्षणा, प्रो डॉ जगदीशचौहान, प्रो रामलाल तोमर, प्रो देवराज, , श्री नरेश बतरा, श्री के० एस० नेगी, प्रो दिपाली, प्रो रेणु, प्रो किरण, प्रो पुष्पा, प्रो कल्याण, प्रो अरुण, श्रीमती जयमन्ती, श्रीमती प्रीति, श्रीमती कला, श्रीमती जोगिन्द्रा, ईकोक्लब की टीम प्रो धनमंती, प्रो जाहिदअली, प्रो सीमात्यागी, एन०सी०सी० इंचार्ज प्रो पूजा, रेड रिबन क्लब इंचार्ज प्रो अमिता, राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी प्रो रीना चौहान, रोवर&रैंजर्स इंचार्ज प्रो प्रदीप तोमर सहित सभी इकाइयों के स्वयंसेवक उपस्थित रहे।



१७ 10/0

महिला स्टाफ को भेंट किए गुलाब के फूल



पांवटा कॉलेज में विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कृत करती प्राचार्या। संवाद

संवाद न्यूज एजेंसी

पांवटा साहिब (सिरमौर)। श्री गुरु गोबिंद सिंह राजकीय महाविद्यालय पांवटा में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्राचार्या प्रो. वीना राठी ने कहा

कि महिलाओं को अस्तित्व को निखारने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर महिला स्टाफ को गुलाब भेंट किए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। एनएसएस के स्वयंसेवी प्रेरणा ने एकल नृत्य, अंकित चौहान ने ओ री चिरैया और वंशिका चौधरी

ने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखे। एनएसएस एवं ईको क्लब के स्वयंसेवकों ने एक कवि सम्मेलन आयोजित किया। इसमें भार्गव तोमर, अर्वातिका सकलानी, अमित तिवारी, नेहा, तनुजा, नितिका चौधरी, देवेन्द्र सिंह और अंकिता ने अपनी कविताओं से वाहवाही लूटी।

21
10/0